



GD DAV PUBLIC SCHOOL
Bhandarkola, Satar ,Deoghar
Session :2024-25

Summer Vacation Holiday Homework

CLASS - UKG



1. Write small letters a to z (2 times) using colour pencils. (3 in 1 copy)
2. Collect different kinds of pictures related to the alphabet (C,H,M,P,S) from old newspapers, books, magazines, etc, and paste them into your scrapbook.
3. Learn Phonic sounds(A to Z).
4. Learn Rhymes- Oneness, Count 1, 2, 3, and My Family.

.5. Learn the Story Two Silly Goats


.Two silly goats

.Once upon a time there were two silly goats.They wanted to cross a narrow bridge.One silly goat was on one side, the other silly goat was on the other side. When they came to the middle of the bridge they couldn't pass each other.Now both of them wanted to be the first to cross. They began to fight. As they were fighting, both of them fell into the water and drowned .


.Moral: Foolishness is always punished.

.LINK:

https://youtube.com/watch?v=L9HAOVY6_PE&feature=shared



MATHEMATICS:



1. Write counting 1 to 10 using Bindi in the scrapbook.
2. Paste any 5 pictures to clear the concept of Tall and Short in the scrapbook .
3. Paste the coin of Rupee 1 (under 5 coins) and write the total numbers of coins.





4. Paste stickers (any kind of stickers like star emoji, etc according to the given number or you can put your thumb impressions too.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	




1. व्यंजन वर्ण क से ज तक पेंसिल रंग से लिखें। (3 in 1 copy).

2. क से ज तक के किन्हीं 10 व्यंजनों के एक-एक चित्र चिपकाए।

(3 in 1 copy)

1. कविता याद करें- सोने की चिड़िया, सीख और बर्थडे।

2. अपनी माँ के नाम के प्रथम अक्षर को फूल-पत्तियों से सजाएं।



5. कहानी धोबी और गधा याद करें।

LINK: <https://youtu.be/30DXatBtrVg?feature=shared>

"गधा और धोबी"



.एक निर्धन धोबी था। उसके पास एक गधा था । गधा काफी कमजोर था क्योंकि उसे बहुत खाने-पीने को नहीं मिलता था। एक दिन एक धोबी को मरा हुआ बाघ मिला । उसने सोचा बाघ की खाल को गधे पर डाल दूंगा। साथ ही इसे पड़ोसियों के खेतों में चरने के लिए छोड़ दूंगा। किसान समझेंगे कि वो सचमुच में बाघ है और उससे डरकर दूर रहेंगे और गधा आराम से खेत में चर लिया करेगा। धोबी ने तुरंत अपनी योजना पर अमल कर डाला। उसकी योजना काम कर गई। एक रात गधा किसी खेत में चर रहा था कि उसे किसी गधे की रेकने की आवाज सुनाई दी । उस आवाज को सुनकर वह इतने जोश में आ गया कि वह भी जोर जोर से रेकने लगा। गधे की आवाज सुनकर किसानों को उसकी असलियत का पता लग गया और उन्होंने गधे की खूब पिटाई की।

.शिक्षा - इसलिए कहा गया है कि अपनी सच्चाई किसी से छुपानी नहीं चाहिए ।

E.V.S

1. Draw or paste healthy and unhealthy food (any 4) in your scrapbook.

2. Go to the park and observe the objects and paste the things that you would see there in the scrapbook.

3. Find the letters of your name from the old newspaper, magazines etc and arrange it according to your name.

4. Make a frame with ice cream sticks and paste your family picture, and also label the relationship in the same picture.





Dear Parents,

Kindly give freedom to your children but keep your supervisory eyes on them and help them wherever needed.

.Some tips for being physically and mentally healthy.

.Get up early in the morning.

.Drink lots of water and other fluids - Nimbu Pani, Coconut Water, Glucose to avoid dehydration.

.Don't watch television and mobile for long periods.

.Complete all your assignments as per the given instructions.

.Do exercise regularly.

.Plant a sapling and water it daily.

.Help your parents in household chores.

.Take nature walk with your parents regularly.



Have a great



VaCaTion!